




अभिषद् की अनुशंसा पर
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी
के अभिशासक परिषद् द्वारा
विज्ञान अधिस्नातक (अनुसंधान द्वारा)
की उपाधि
आदित्य चौहान
अभियांत्रिकी अनुभाग
को

31 अक्टूबर 2015 को मण्डी में प्रदान की गयी।

शोध प्रबन्ध: स्ट्रेस-मीडिएटेड ट्यूनिंग ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन 0.68पीबी
(एमएन_{1/3}एनबी_{2/3})ओ₃-0.32पीबीटीआइओ₃ सिंगल क्रिस्टल्स



The Board of Governors of the
Indian Institute of Technology Mandi

upon the recommendation of the Senate hereby confers the degree of

Master of Science (by Research)

on


ADITYA CHAUHAN

School of Engineering

Given at Mandi on this 31st of October 2015

Thesis: Stress-Mediated Tuning of Ferroelectric Properties in 0.68Pb (Mn_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.32PbTiO₃
Single Crystals


अध्यक्ष, अभिशासक परिषद्
Chairman, Board of Governors


निदेशक एवं अध्यक्ष, अभिषद्
Director & Chairman, Senate


कुलसचिव
Registrar